

September 07, 2021

The National Stock Exchange of India Listing & Compliance Department

"Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400 051

(Scrip Code - SHIVAMAUTO)

The BSE Limited Listing & Compliance Department

Phiroje Jeejeebhoy Towers Dalal Street Fort Mumbai – 400 001

(Scrip Code - 532776)

Subject: Submission of Clippings of Newspaper Advertisement regarding Notice to the

Members for 16th Annual General Meeting, Book Closure, E-voting Information and

for completion of dispatch of Annual Report

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47(1)(d) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the advertisement regarding Notice to the Members for 16th Annual General Meeting, Book Closure, E-voting Information and for completion of dispatch of Annual Report on Monday, September 06, 2021 via email to the members whose email addresses were registered with the Registrar and Share Transfer Agent or with Depository participant(s), published by the Company in the newspaper viz.

- Business Standard (National daily newspaper in English) on September 07, 2021
- Business Standard (Regional daily newspaper in Hindi) on September 07, 2021

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Shiyam Autotech Limited

Samta Bajaj

Company Secretary and Compliance Office

M. No. 50269

Tel: 0124-4698700 **Fax:** 0124-4698798

THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED. (A Govt. of India Enterprise) Regd. Office: Eloor, Centralised Materia ACT-PD Administrative Building, Udyogamandal - Cochin - 683 501 (Kerala) Tel: (0484)-256 8629/ 8260/ 2545196, Website: http://www.fact.co.ir E-mail: julian@factltd.com; paulpt@factltd.com

TENDER FOR LOADING, TRANSPORTATION & DOZING OF GYPSUM/OTHER MATERIALS

[Enquiry No. MM/180/E23950 dated 06.09.2021] Bids (two cover system) are invited from experienced and financially sound parties for loading, transportation and dozing of Gypsum/other materials at FACT-Cochin Division at Ambalamedu for a period of two years through https://eprocure.gov.in portal. Any change / Extensions to this tender will be informed only through CPP e-procurement portal / FACT Website and wil not be published in newspapers.

Due date/time for submission of bids is 21.09.2021/3.00 P.M. Asst. General Manager (Materials)-T&S



Petronet LNG Limited

Tender for Architectural Consultancy, Design & Engineering, Project & Construction Management Services For Development of Affordable Rental Housing Complexes (ARHC at Eksal Village, Dist- Bharuch, Gujarat

Petronet LNG Limited (PLL) invites from experienced and financially sound Contractors for Architectural Consultancy, Design 8 Engineering, Project & Construction Management Services for Development of Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) A Eksal Village, Dist-Bharuch, Gujarat.

Interested parties are requested to visit our website www.petronetIng.ir for detailed eligibility criteria along with other necessary details for issuance of tender document.

The complete set of bidding document can be downloaded from the PETRONET LNG LIMTED e-Procurement-portal https://petronet.c1eproc.com and tender is available for online bid submission.

Dy. Manager (C&P) PETRONET LNG LIMITED

1st Floor, World Trade Centre, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi - 110001, India, **Tel. No**. +91-11-23472525, **Email:** cnp@petronetlng.ir

FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

	RELEVA	NT PARTICULARS
1.	Name of the Corporate Debtor	AMZEN MACHINES PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	10th November 2010
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC, DELHI
4.	Corporate identity number/limited liability identification number of corporate debtor	U74120DL2010PTC210299
5.	Address of the registered office of corporate debtor	A. DSC 245, First Floor, The South Court, DLF Saket, Saket, New Delhi – 110017
	Address of the places of Business (if any) of corporate debtor	 B. Shed No 7 & 8, ACE Complex, Village Malpura Dharuhera, Distt. Rewari, Haryana 122106 C. No.127, Killacherry Village, Kadambatur Union, Dist-Thiruvallur, Chennai, Tamil Nadu 631404 D. B-6, MIDC Ranjangaon, Tehsil-Shirur, District Pune 412201 Maharashtra
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	11th March 2021
7.	Date of invitation of expression of interest	07th September 2021
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be sought in electronic form by email at: EOI.AMZEN@CAANURAG.COM
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Available at https://ibbi.gov.in/legal-framework Also along-with detailed Invitation of Expression of Interest document
10.	Last date for receipt of expression of interest	30th September 2021
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	06th October 2021
	Last date for submission of objections to provisional list	11th October 2021
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	17th October 2021
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	11th October 2021
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Eligible Resolution Applicant may communicate w Resolution Professional at the address mentioned against serial No. 21 for obtaining RFRP, Evaluation Matrix, Information Memorandum & further information.
16.	Last date for submission of resolution plans	05th November 2021 by 18:00 Hours
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In electronic form to the email ID or by Speed Post of Registered Post or Courier at address given at Sr. No. 21
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	06th December 2021 (Subject to approval of exclusion & Extension by Hon'ble NCLT)
19.	resolution professional	Anurag Goel Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00876/2017-18/11460
20.	Name, Address & e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Anurag Goel 10/349, First Floor, Sunder Vihar, Paschim Vihar, New Delhi – 110087 Email: AGOEL@CAANURAG.COM
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Anurag Goel 10/349, First Floor, Sunder Vihar, Paschim Vihar, New Delhi – 110087 Email: EOI.AMZEN@CAANURAG.COM
	Further Details are evallable at as with	Can be obtained by conding and late

SPML INFRA LIMITED

CIN: L40106DL1981PLC012228

22 Further Details are available at or with Can be obtained by sending email at EOI.AMZEN@CAANURAG.COM

07th September 2021

Resolution Professional of Amzen Machines Private Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00876/2017-18/11460 10/349, First Floor, Sunder Vihar, Paschim Vihar, New Delhi – 110087 Mob: 9212117008 | Email: EOI.AMZEN@CAANURAG.COM

CA Anurag Goe

3. Date of publication of Form G

Date: 07.09.2021

Registered Office: F 27/2, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi - 110020 Tel.: 011-26387091; E-mail: cs@spml.co.in; Website: www.spml.co.in

Notice to Members for 40th Annual General Meeting Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the Me INFRA LIMITED will be held on Wednesday, the 29th September, 2021 at 02:30 P.M through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the notice of the AGM.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated 5 May, 2020, 13 April, 2020 read with circular dated 13th January, 2021 (collectively referred to as "MCA Circular") permitted the holding of AGM through VC o OAVM, without the physical presence of the Members at a venue. In compliance with the MCA Circular and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 40th AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circular and SEBI Circular dated 12th May, 2020 and 15th January, 2021. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's website www.spml.co.in on the website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the ourpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM "e-Voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the

If your email ID is already registered with the Company / Depository Participant, logi details for e-voting being sent on your registered email address.

In case you have not registered/updated your email address with the Company Depositor Participant, please follow below instructions to register/update your email-id for obtaining Annual Report and login details for e-voting: Send a request to the Maheshwari Datamatics Private Limited, Register an

(front and back), self-attested copy of PAN card and Aadhaarfo registering/updating email address. Demat Please contact your Depository Participant (DP) and register/update your ema

Physical | Share Transfer Agent of the Company at mdpldc@yahoo.com providing Folio

Holding No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate

Holding address as per the process advised by your DP.

The Annual Report for FY 2020-21 and Notice of 40th AGM of the Company will be sent to al the shareholders at their registered email address in accordance with provisions of Companies Act 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015.

For SPML Infra Limited (Swati Agarwal) Date: September 06, 2021

Date: 06.09.2021 Company Secretary Place: Kolkata



NAVI AMC LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS ESSEL FINANCE AMC LIMITED) Registered Office: Peerless Mansion, 1. Chowringhee Square, Kolkata-700069 Tel: 033 40185000; Fax: 033 40185010; Toll free no. 1800 103 8999, Website: www.navimutualfund.com, Email: mf@navi.com CIN: U65990WB2009PLC134537

NOTICE CUM ADDENDUM (No. 23 of 2021-22)

CHANGE IN KEY PERSONNEL:

Unitholders/Investors of the Schemes of Navi Mutual Fund are advised to take note of the following Mr. Hari Shyamsunder has been appointed as Fund Manager for the following schemes of Navi Mutual Fund (Formerly known as Essel Mutual Fund) with effect from September 1, 2021 in place of Mr. Saravana Kumar.

- Navi Flexi Cap Fund
- Navi Large & Midcap Fund Navi Large Cap Equity Fund 3
- Navi Equity Hybrid Fund
- Navi 3 in 1 Fund (Debt Portion) 5.
- 6. Navi Regular Savings Fund Navi Liquid Fund
- Navi Ultra Short Term Fund

The following details of Mr. Hari Shyamsunder shall be included in the SAI of Navi Mutual Fund:

	,	
Name and Designation	Age and Qualification	Brief Experience
Hari Shyamsunder	Age-39 Years	Mr. Hari has more than 16 years of experience.
Fund Manager	Qualification-	Franklin Templeton Asset Management:
	 Chartered Financial Analyst 	Co-fund manager, Research Analyst
	Post Graduate Diploma in Management from IIM-Bangalore	(Nov 16, 2009-Aug 29, 2021) BG India (Indian subsidiary of
	B.E. (Mech Engg), National Institute of Technology, Trichy	oil & gas major BG Group): Business Analyst (2005-2009)

Mr. Hari Shyamsunder shall be regarded as Key Personnel of Navi AMC Limited.

Further, Mr. Saravana Kumar has ceased to be the Chief Investment Officer (CIO) and Key Personnel o Navi AMC Limited (Formerly known as Essel Finance AMC Limited) with effect from the close of business hours on August 31, 2021.

All the references of Mr. Saravana Kumar shall stand deleted from the SAI, SID & KIM of the schemes of Navi Mutual Fund.

This Notice cum Addendum forms an integral part of Statement of Additional Information (SAI) Scheme Information Document ("SID") and Key Information Memorandum ("KIM") of the Schemes of Navi Mutual Fund, as amended from time to time

All the other terms and conditions of SAI, SID and KIM of the Schemes of the Mutual Fund except as specifically modified herein above remain unchanged

> For Navi AMC Limited (Formerly Essel Finance AMC Limited] (Investment Manager to Navi Mutual Fund (Formerly Essel Mutual Fund)

Place: Bengaluru Date: September 6, 2021

Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



SHIVAM AUTOTECH LIMITED

CIN: L34300HR2005PLC081531

Registered Office: 10, 1st Floor, Tower-A, Emaar Digital Greens, Sector-61, Golf Course Extension Road, Gurugram, Haryana-122102 Tel: 0124-4698700; Fax: 0124-4698798 Email id: info@shivamautotech.com; Website: www.shivamautotech.com

NOTICE OF THE 16[™] ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting ("16th AGM") of the members of the Company will be held on Wednesday, the 29th day of September, 2021 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("the Act") and rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations" read with General Circular Nos. 14/2020 (April 8, 2020), 17/2020 (April 13, 2020), 20/2020 (May 5, 2020) & 02/2021 (January 13, 2021) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (May 12, 2020) & SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 (January 15, 2021) issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") without the physical presence of members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice of the 16th AGM.

In Compliance with the above mentioned Circulars, the electronic copies of the Notice of the 16th AGM setting out the Ordinary and Special business(es) to be transacted there at together with the Annual Report for the Financial Year 2020-21 has been sent to all the members at the email ids registered with the Company / Depository Participant(s). The e-mail transmission of Notice and Annual Report has been completed on September 06, 2021. Please note that the requirement of sending physical copies of the Notice and Annual Report has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. Notice and Annual Report will also be available on the Company's website www.shivamautotech.com, websites of the Stock Exchanges i.e. The BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited at <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u> respectively, and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is providing its members facility to cast their vote electronically for transacting all the business items as mentioned in the Notice of 16th AGM of the Company through remote e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The Remote e-voting period begins at 9.00 a.m., on Sunday, September 26, 2021 and ends at 5.00 p.m., on Tuesday, September 28, 2021. The remote e-voting module shall be disabled by the CDSL at 5.00 p.m. on September 28, 2021.

Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall also be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed procedure for remote e-voting or e-voting during the AGM and to join the AGM through VC by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the notice of 16th AGM.

The "cut-off date" for determining the eligibility of Members for voting through remote e-voting as well as e-voting during the AGM and attending the meeting through VC/OAVM is Wednesday, September 22, 2021. Any person who becomes a member of the Company after the electronic dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 22, 2021 can follow the process for generating the user id and password as provided in the Notice of 16th AGM, available on the Company's website www.shivamautotech.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

It is further notified that pursuant to Section 91 of the Act read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer books of the Company shall remain closed from Monday, September 20, 2021 to Wednesday, September 29, 2021 (both days inclusive) for the purpose of

The Board of Directors of the Company at its meeting held on August 13, 2021 have appointed Mr. Satyender Kumar, (Membership No. F4087), Satyender Kumar & Associates, Company Secretaries, Gurugram as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and e-voting during the AGM in a fair and transparent manner in accordance with law.

Members who have not registered their e-mail addresses can register the same with the respective Depository Participants in case you hold the shares in electronic form and by writing to Registrar and Transfer Agent with details of Folio No. and attaching a self-attested copy of PAN CARD & address proof at admin@mcsregistrars.com, if the shares are held in Physical Form.

In case you have any queries or issues regarding attending AGM and e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to: Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) (022-23058542/43). For Shivam Autotech

Company Secretary & Compl

VIDHI SPECIALTY FOOD INGREDIENTS LIMITED

[CIN: L24110MH1994PLC076156]

Registered Office: E/27, Commerce Center 78, Tardeo Road, Mumbai-400034 VIDHI **Phone No.**: 022-6140 6666; **Fax No**.: 022- 23521980

Website: www.vidhifoodcolour.com; Email id: mitesh.manek@vidhifoodcolour.com NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

This is hereby informed that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of **Vidhi Specialty** Food Ingredients Limited is scheduled to be held on Tuesday, September 28, 2021 at 03:30 p.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means to transact the business as set out in the Notice

Notice of AGM along with Annual Report has been sent only through electronic mode in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 14/2020 dated April 08, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD CMD2/CIR/P/ 2021/11 dated January 15, 2021 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/ 2020/79 dated May 12, 2020 ("SEBI Circulars"), on Monday, September 06, 2021 to the Members whose e-mail ids are registered with the Company/Depositories/Registrar and Share Transfer Agent ('R&TA'). The same shall also be available on the website of the Company at www.vidhifoodcolour.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The AGM Notice shall also be available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for remote e-voting, voting during and joining the AGM are given in detail in the Notice of the AGM. Members attending through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

Electronic copies of all the documents referred to in the accompanying Notice of the AGM shall be made available for inspection electronically without any fee by the Members from the date of circulation of this Notice up to the date of 28th AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to vdmlcs@hotmail.com

Instruction for Remote e-voting prior to the AGM and e-voting during the AGM Detailed procedure for remote e-voting and voting at AGM has been me

Login credential and password details are emailed to the Members at their registered email ID.

In case of any queries/grievances pertaining to remote e-voting (prior to and/or during the AGM) you may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available in the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com or call on the toll free no 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in

Person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL email id: evoting@nsdl.co.in telephone no: 022

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, September 21, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

lotice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed there under and pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed rom Wednesday, September 22, 2021 to Tuesday, September 28, 2021 (both days inclusive).

Pursuant to MCA Circulars and SEBI Circular referred above read with Section 108 of the Companies Act 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standards on General Meeting ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing facility to all its Members to cast their vote on all resolutions set forth in the Notice of the AGM by electronic means (e-voting). The Company has engaged NSDL to provide platform for e-voting facility for 28th AGM.

Details of e-voting Schedule are as under:

The cut-off date for the purpose of e-voting: Tuesday, September 21, 2021

Date of completion of dispatch of notice: Monday, September 06, 2021

Date & time of commencement of e-voting: Saturday, September 25, 2021 at 09:00 a.m. (IST)

Date & time of end of e-voting: Monday, September 27, 2021 at 05:00 p.m. (IST)

Attention is invited to all the shareholders that:

Remote e-voting shall not be allowed beyond 05.00 p.m. (IST) on Monday, September 27, 2021. The remote e voting module shall be blocked/disabled for voting thereafter;

a Member may participate in the General Meeting even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be entitled to vote again;

The Company shall also be providing the e-voting facility during AGM for those Members who are attending the AGM through VCC/OAVM and have not voted through remote e-voting. Once vote on a resolution is cast by the Members through e-voting, the Members shall not be allowed to change it; and Member as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 21, 2021 shall only be entitled for availing the

Remote e-voting facility as per the procedure given in the Notes to the Notice of the 28th AGM or, as the case may be, during the General Meeting in respect of the business mentioned in the said Notice For Vidhi Specialty Food Ingredients Limited,

Date: September 06, 2021 Place: Mumbai

Future On Track IRFC INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD. (A Govt. of India Enterprise)

Bipin Madhavji Manek

DIN: 00416441

Chairman & Managing Director

(A Govt. of India Enterprise)
CIN - L65910DL1986GOI026363

Regd. Office: Room Nos. 1316 – 1349, 3rd Floor, Hotel The Ashok Diplomatic
Enclave, 50-B, Chanakyapuri, New Delhi 110021

Phone: +91 011 – 24100385, Email: investors@irfc.nic.in; Website: www.irfc.nic.in

PUBLIC NOTICE OF CONVENING 34th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting (the "AGM") of Indian Railway Finance Corporation Limited (the "Company") will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 03:00 p.m.(IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules notified thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 read with all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the businesses, as set out in the notice calling the AGM.

The VC/OAVM facility for the meeting shall be provided by **Central Depository Services (India)** Limited ("CDSL") to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. The Members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM.

In Compliance with the MCA & SEBI circular(s), Notice stating out the businesses to be transacted at the AGM together with the Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 have been sent electronically to those members whose email address is registered with the Company /Depository Participant(s). No physical copies of the Notice and the Annual Report would be sent to members. The Notice of the AGM and the Annual Report is also available on the Company's website link: https://irfc.nic.in/annual-ar-2020-21/ and on the website of Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and also on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

Further, pursuant to the provisions of Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is informed that the Company has fixed the following dates in

S. No	Particulars	Details
1.	Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to vote by electronic means or during the general meeting	Wednesday, 22nd September, 2021
2.	Book Closure Period	25th September, 2021 to 28th September, 2021 (both days inclusive)
3.	Period of remote e-voting to enable shareholders as on the Cut-off date i.e. 22nd September, 2021 to cast their votes on proposed resolutions electronically	The remote e-voting period begins on 26th September, 2021 at 9:00 AM (IST) and ends on 28th September, 2021 at 5:00 PM (IST).
		The Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Manner of casting vote(s) through e-voting and joining the AGM through VC/OAVM Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the businesses as set out in the Notice

of the AGM through remote e-voting facility ("remote e- voting"). Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and is holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The facility for e-voting will also be made available during the AGM to those members who could not cast their vote(s) through remote e-voting. The detailed procedure for e-voting before as well as during the AGM is provided in the Notice of the AGM. Members who do not receive email or whose email address is not registered with the company/DP, may generate login credentials as per the instructions given in the Notice of AGM.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting at the AGM. If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43

For Indian Railway Finance Corporation Limited

Place: New Delhi ate:06.09.2021

Vijay Babulal Shirode **Company Secretary**

Important Notice: Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to update their records such as tax residential status, permanent account number (PAN) and register their email addresses, mobile numbers and other details with the relevant depositories through their depository participants and Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's registrar and share transfer agent, Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at irfc@beetalfinancial.com



Place: Gurugram

































होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड _{सीआईएन : U65990MH2010PTC240703}

वेबसाइट : homefirstindia.com दूरभाष नं. : 180030008425 ई-मेल आईडी : loanfirst@homefirstindia.com

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेर

निवासी 54ए, जनता फ्लैट्स, लाल क्वार्टर्स

गंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली—110026

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात–362266 **शाखा कार्यालयः** प्रथम तल, विजया बिल्डिंग, एन—17, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली—11000[.]

संपत्ति नं. 119, समस्त बेसमेंट और समस्त भूतल, एरिया माप 300 वर्ग गज, ब्लॉक–ए, जनता कॉ–आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग

VI.	सारावित लि., नारा बान, नारवन विवाद, ने विदेशा-11000 ने जवाबित बड़ा वरितुजार व्यवसानत वर्ष सानाना का कटान के लिए नाटिस				
	कर्जदार / सह—कर्जदार				
1.	मदर्स प्राइड ऐजूकेशन परसोना प्रा. लि., पताः 11 / 77, वेस्ट पंजाबी बाग,	2.	मेसर्स मार्वल इंफ्रा प्रोजैक्ट्स प्रा. लि.,		
	दिल्ली—110026		आर/ओ ए—119, भूतल, मीरा बाग, पश्चिम विहार, पश्चिमी दिल्ली,		
			दिल्ली-110063		
3.	श्रीमती राज रानी गुप्ता,	4.	श्री महेश कुमार बंसल,		
	निवासी ए—172, आउटर रिंग रोड, मीरा बाग, पश्चिम विहार, पश्चिमी		निवासी सी-1/25, निकट सदर कालोनी, सेक्टर-16, रोहिणी, नॉर्थ		
	दिल्ली, दिल्ली—110063		वेस्ट दिल्ली, दिल्ली—110089		
5.	श्रीमती सुधा गुप्ता,	6.	श्री प्रतीक गुप्ता,		
	निवासी ए—172, आउटर रिंग रोड, मीरा बाग, पश्चिम विहार, पश्चिमी		निवासी ए—172, आउटर रिंग रोड, मीरा बाग, पश्चिम विहार, पश्चिमी		
	दिल्ली, दिल्ली—110063		दिल्ली, दिल्ली–110063		
7.	श्रीमती पारस गुप्ता,	8.	सुश्री रूबल,		

भौतिक कब्जे की तारीख: 05.10.2020 प्रथम ई-नीलामी की तारीखः 15.01.2021 द्वितीय ई-नीलामी की तारीखः 20.04.2021

दिल्ली दिल्ली-110063

निवासी ए-172, आउटर रिंग रोड, मीरा बाग, पश्चिम विहार, पश्चिमी

ऋण खाता सं. ABFLND LAP0000027557

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड (**''एबीएफएल'')** ने सरफासी अधिनियम, 2002 और इसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत रु. 2,70,19,127 / – की मांग करते हुए मांग सूचना दिनांकित 27.05.2021 जारी की थी। ऐसी चूक पर उक्त भुगतान में चूक पर एबीएफएल ने संपत्ति नं. 119, समस्त बेसमेंट और समस्त भूतल, एरिया माप 300 वर्ग गज, ब्लॉक–ए, जनता कॉ–आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लि., मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 का अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से 05.10.2020 को भौतिक कब्जा

वस्तुओं / चल सामानों जो उक्त संपत्ति परिसर पर छोड़े गए थे, उनको हटाने के लिए आप उपरोक्त संबोधितियों को सुचना / इत्तला दिनांकित 31.03.2021, 18.06.2021, 27.07.2021 भेजी गई थीं और यह सचित किया गया था कि ऐसी वस्तुओं / व्यक्तिगत सामानों को हटाने में असफल होने फ एबीएफएल इनकी किसी क्षति / हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

वस्तओं को हटाने के लिए आप संबोधितियों को सचना / इत्तला दिनांकित 11.08.2021 भेजी गई थी और दायित्वों के निर्वहन में असफल होने पर एबीएफएर अदावित वस्तुओं को बेचने के लिए बाध्य होगा और राशि को बकाया देयों व व्ययों/बकाया/प्रभारों आदि के लिए समायोजित किया जायेगा। यह सुचित किया जाता है कि एबीएफएल ने आज की तारीख तक उक्त वस्तुओं को नहीं बेचा है।

कृपया सूचित हों कि **ऋण खाता सं.** ABFLND_LAP0000027557 के लिए अपने बकाया देयों की वसूली के लिए संपत्ति नं. 119, समस्त बेसमेंट और समस्त . भूतल, एरिया माप 300 वर्ग गज, ब्लॉक–ए, जनता कॉ–आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लि., भीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 की बिक्री .. कर दी गई है और सरफासी अधिनियम, 2002 और इसके तहत नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में सफल खरीदार को बिक्री प्रमाणपत्र दिनांकित 29.06.2021 जारी किया गया था।

कर्जदारों / सह—कर्जदारों को इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से उक्त संपत्ति परिसर से प्राधिकृत अधिकारियों की उपरिथति में 4 दिनों के अंदर वस्तुओं / चल सामानों को हटाने / हटाने की ऐसी व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है। कृपया नोट करें कि वस्तुओं को हटाने में असफल होने पर एबीएफएल दनकी किसी श्रति / हानि के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेटार नहीं होगा।

. आप इस सार्वजनिक नोटिस के संबंध में किसी स्पष्टीकरण और / या अपनी ओर से अनुपालन के लिए श्री भूपेन्दर तंवर (मोबाइल नं. 9999993832) या चित्रेश बनन (मोबाइल नं. 9205083582) आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी को प्रथम तल. विजया बिल्डिंग, एन–17, बाराखंबा रोड नई दिल्ली–110001 को संपर्क कर सकते हैं।

प्राधिकत अधिकारी आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

हस्ताक्षरकर्ता : अधिकृत प्राधिकारी

होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड सीआईएनः L55101DL1980PLC011037 पंजीकत कार्यालयः भीकाजी कामा प्लेस. एम. जी. मार्ग. नई दिल्ली-110066

फोनः 011 66771225/26; फैक्सः 011 26791033 ई-मेलः investorrelations@ahlnorth.com; वेबसाइटः www.asianhotelsnorth.com 40वीं वार्षिक आम बैठक व पुस्तक बंदी की सूचना तथा

कट-ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग इत्यादि से सम्बंधित प्रज्ञापन

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड (कम्पनी) की 40वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को

11.00 बजे पूर्वाहन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू होने योग्य प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, संबंधित सेक्रेटेरियल मानक तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 एवं 17/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, २०२० क्रमशः, परिपत्र संख्या २२/२०२० दिनांकित १५ जून, २०२०, परिपत्र संख्या ३३/२०२० दिनांकित २८ सितम्बर 2020, परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तथा सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 द्वारा जिन कम्पनियों की एजीएम वर्ष 2020 में होने वाली थी या वर्ष 2021 में होने वाली है, उन्हें सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 (एमसीए परिपत्रों) के पैराग्राफ 3 एवं 4 में प्रदान की गई आवश्यकताओं के अनुसार 31.12.2021 को या उससे पूर्व अपनी एजीएम आयोजित करने की दी गई अनुमति तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 जिसकी वैधता परिपत्र संख्या SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 (सेबी परिपत्रों) के हवाले से 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ा दी गई है, के अनुसरण में, एजीएम की आहूत सूचना दिनांकित 11 अगस्त, 2021 में निरूपित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। एजीएम के स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

तदनुसार, उपरोक्त निर्दिष्ट परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 (31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेत् एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों, बोर्ड की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न होने हेतु वांछित अन्य दस्तावेजों सहित), उन सभी सदस्यों को ई-मेल कर दी गई हैं जिनके नाम सदस्यों के रिजस्टर अथवा डिपॉजिटरी, नामतः नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), द्वारा शुक्रवार, 3 सितम्बर, 2021 को प्रस्तृत लामार्थियों की सूची में उपस्थित हो तथा जिन्होंने कम्पनी /रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी के साथ अपने संबंधित ई-मेल पते दर्ज किए थे। अतः, सदस्यों को उक्त सचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ प्रदान नहीं की जा रही हैं। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2020—21 की ई—मेलिंग 6 सितम्बर, 2021 को पूर्ण हो गई है।

सदस्य ६ सितम्बर, २०२१ को अग्रेषित एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट २०२०-२१ के ई-मेल में दिए गए उनके ई–वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वीसी ∕ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। एजीएम में भाग लेने के लिए https://emeetings.kfintech.com है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना हेतु संगणित किया जाएगा।

- एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2020—21 कम्पनी की वेबसाइट <u>www.asianhotelsnorth.com</u> पर अपलोड कर दी गई हैं तथा इन्हें इसके सूचना पट अथवा मुख्य पृष्ठ पर 'रिपोर्ट' अनुभाग के अन्तर्गत 'वार्षिक रिपोर्ट' में एशियन होटल्स नॉर्थ – एजीएम सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 पर क्लिक कर के देखा/डाउनलोड किया जा सकता है तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (<u>www.nseindia.com</u>) पर उपलब्ध हैं एवं कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजेंट, केफिन् टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx पर भी उपलब्ध है
- वे सदस्य जिनके ई–मेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत/अद्यतित नहीं हैं और वे व्यक्ति जो 4 सितम्बर, 2021 तथा 22 सितम्बर, 2021 के बीच कम्पनी के सदस्य बने हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर के यूजर आईडी एवं आदिम पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:
 - अ) भौतिक मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य जिन्होंने कम्पनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अद्यतिनत नहीं किया है, से अनुरोध है कि <u>https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx</u> लिंक पर क्लिक करके अथवा अपने फोलियो संख्या के विवरण सहित एवं पैन कार्ड की एक स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए कम्पनी को investorrelations@ahlnorth.com या आरटीए को einward.ris@kfintech.com को लिख कर पंजीकरण/अद्यतन कराएं।
 - आ) डिमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों, जिन्होंने ईमेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं), जिनके साथ वे अपना डीमैट खाता प्रतिरक्षित रखते हैं, के साथ अपने ईमेल पते का पंजीकरण/अद्यतन कराएं।
- इ) उचित सत्यापन के पश्चात्, कम्पनी / आरटीए आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को आपके संबंधित ईमेल पते पर अग्रेषित करेंगे।
- ई) अपना वोट डालने के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना के नोट संख्या 15.1 में दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- उ) आप फोलियों के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल पता भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग आगे संचार भेजने के लिए किया जा सकता है।
- सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में सेबी ने परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 दिनांकित 9 दिसम्बर, 2020 को जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को प्रतिरक्षित करने वाले सभी व्यक्तिगत शेयरधारक को अपने डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइटों के साथ अनुरक्षित डीमैट खाते के माध्यम से मतदान हेतु ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम कर दी गई है।

तदनुसार, कम्पनी डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को प्रतिरक्षित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अनुरक्षित उनके डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति दे रही है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें। अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (नियम) के नियमन 20, एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 44 के अनुपालन में, कम्पनी अपने सभी सदस्यों को, एजीएम में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत व्यवसायों पर उनके वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने हेत्, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) द्वारा प्रदान किए जाने वाले रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। रिमोट ई-वोटिंग की अविध **शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 को प्रात**ः

(भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। सदस्य, जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल सके, उन्हें वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोट करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, यदि वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लें।

9.30 बजे (भारतीय मानक समय) पर आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को सायं 5.00 बजे

- एजीएम की सूचना स्पष्ट रूप से रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया अभिन्यासित करती है। सदस्यों को सूचना में निर्धारित सभी टिप्पणियों, विशेषतः टिपण्णी संख्या 14, 15, 16 एवं 17, को ध्यान से पढना चाहिए।
- यदि सदस्य उपरोक्त मामलों में कोई प्रश्न रखते हैं, तो सदस्य आरटीए की वेबसाइट अर्थात् https://evoting.kfintech.com के हेल्प एवं 'एफएक्यू' अनुभाग पर जा सकते हैं या आरटीए अर्थात् केफिन् टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से उनके कार्यालय सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31—32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032, तेलांगना में टेलीफोन नंबर 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर अथवा ई-मेल आईडी evoting@kfintech.com पर या आरटीए के अधिकारी, श्री डी. सुरेश बाबू से suresh.d@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य कम्पनी से भी 011-66771225 / 1226 एवं ईमेल आईडी: investorrelations@ahlnorth.com पर संपर्क कर सकते हैं।
- कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री रूपेश अग्रवाल, उनके विफल होने पर श्री एस चंद्रशेखरन, उनके विफल होने पर श्री शशिकांत तिवारी, पार्टनर्स, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरी, की रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (इन्स्टा पॉल) के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजन हेतु संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है। मतदान का परिणाम निर्धारित समय के अन्दर घोषित किया जाएगा, और इसे स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा तथा कम्पनी तथा आरटीए की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित नियमों के नियमन 10(1) एवं सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें बृहस्पितवार, 23 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021, दोनों दिन सम्मिलित, तक, एजीएम के उद्देश्य से, बंद रहेंगी।

कृते एवं की ओर से एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड हस्ता /-

सौम्या गोयल कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्याः एसीएस 55556

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 09, कम्प्यूनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार नई दिल्ली - 110057. Herc Housing फोन : 011 4926700, टोल क्री सं. 1800 212 8800, ई-मेल : customer.care@herohfl.con

माग सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आरितयों के प्रतिभूतिकर्ग एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अंतर्गत

जैसा कि हीरो हाजसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) के प्राधिकत अधिकारी मौजदा अधोहस्ताक्षरी ने नियम क्र नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में और नियम के अंतर्गत पहले ह नीचे दिए गए विवरण अनुसार संबंधित सूचना/ओं की विनांक से 60 दिनों के मीतर संबंधित मांग सूचना/ओं में वर्णित राशियों का भुगतान करने के लिए यहां सूचनी में वर्णित ऋणी(यों)/सह–ऋणी(यों)/गारंटर(ऑं) (''बाध्यकारों'' को एकल या एक साथ)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को बुलाने के लिए अधिनियम की धारा 13(२) के अंतर्गत निम्न विणित दिनांक पर विस्तृत मांग सूचनाएं जारी की थीं उक्त सूचनाओं के प्रति प्रति को पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा भेजा गया था और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उक्त आर्प पर्याप्ति । अप १,७३६ आ ने गणा पाचा चा जोर आचारताचार पर्याप्ति उपराच्या है आर उर बाध्यकार(औ), नेकानूनी जनताचिकारी(औ), कानूनी प्रतिनिधि(याँ), यदि वे इसके इच्छुक हैं , सामान्य कार्याल घंटों के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त के संबंध में, उक्त बाध्यकार(ओं) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध और अन्य दस्तावेज/लिखित, यदि कोई है के उत्तर प्रत्ये ने, उत्तर वास्पेगर्स्या) बारी गन्यावित रहण अनुषय आर अन्य दर्भाग्यालं (स्वार वार्य शह र फ् साथ पठित भुगतान और/या वसूली की दिनांक तक कॉलंग्स हों) में नोब वर्णित संबंधित दिनांकों से नीब दिए गए विवरण अनुसार भावी ब्याज के साथ उनके संबंधित नामों के लिए यहां नीबे निर्दे शित राशि संबंधित सुचना(ओं) की विनांक से 60 दिनों के भीतर एचएचएफएल को भुगतान करने के लिए उक्त बाध्यकार(ऑ)/कार्न् वारिस(ऑ)/कान्नी प्रतिनिधि(यॉ) को एक बार फिर एतद्झारा सृचित किया जाता है। ऋण के देय पुर्नभुगतान दे लिए प्रतिभूति अनुसार, निम्नलिखित प्रत्याभूत सम्पत्ति(याँ) को उक्त बाध्यकार(ओं) क्रमशः द्वारा ए गेरवी रखी हर्ड हैं।

।गरपा रखा हुई हा				
ऋण खाता	बाध्यकार(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/	निम्न दिनांको अनुसार	मांग सूचना	एनपीए
संख्या	कानूनी प्रतिनिधि(ओं) के नाम	कुल बकाया देय (₹)	की दिनांक	की दिनांक
HHFDELLAP2 0000007424		रूपये 45,52,378/- दिनांक 24.08.2021 तक	दिनांक 25 अगस्त 2021	दिनांक 08 अगस्त 2021

<mark>त्त्याभूत परिसंपत्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरण :</mark> संपत्ति धारक सं. 246, ब्लॉक और गॅकेट ए–7, सेक्टर–17, रोहिणी आवासीय योजना, **रोहिणी, दिल्ली–110085 उक्त संपत्ति के नीचे की** नायर है , अर्थन्त , त्राह्म जाजाराज जाता है । स्वर्णित । स्वर्णित । स्वर्णित । स्वर्णित स्वर्णित स्वर्णित स्वर भूमि के फ्री होल्ड अधिकारों सहित, जिसका क्षेत्र 25.90 वर्ग मीटर का संपूर्ण व सर्वामीण भाग संपर्णि सीमांकन प्रकार : पूर्व : सड़क, पश्चिम : सर्विस लेन, उत्तर : प्लॉट सं. 247, दक्षिण : प्लॉट सं. 245

HHFDELHOU 19000003171		रूपये 15,94,671/– दि. 25.08.2021 तक	25 अगस्त 2021	08 अगस्त 2021		
प्रत्याभुत परिसंपत्तियों / अचल सम्पत्तियों / बंधक सम्पत्तियों का विवरण : निर्मित प्रथम तल, बिना छत अधिकारों,						
(पीछे की ओर/उत्तरी हिस्सा), संपत्ति धारक सं. 229 का, खसरा सं. 15/12 के बाहर, ग्राम–मतियाला,						
	पॉर्क के नाम से ज्ञात, बलॉक–ई में,					
गज यानी ३३.४४ वर्ग मीटर) सीमांकन प्रकार : उत्तर : १० फुट चौड़ी सड़क, पूर्व : प्लॉट सं. २८ए, दक्षिण : २०						
फुट चौडी सडक,	पश्चिम : अन्य की भूमि।					

रुपये 19,30,892/- 25 अगस्त 08 अगस्त दि. 25.08.2021 तक 2021 2021 अमरिता विश्वास प्रत्याभन प**रिसंपनियों /अचल सम्पनियों /बंधक सम्पनियों का विवरण** • निर्मित संपन्ति धारक प्रतॉट सं सी–32 और त्रस्या सुर्त्तारस्यात्राज्ञयस्य सन्यात्राज्ञयस्य प्रविद्यान्त्रस्य कृतियस्य । नामार स्वयान्त्रस्य स्वयान्त्रस 33. के सामने की ओर उमरी भूतल पर बिना चल अधिकाराँ, मुस्तातिल सं. 21 के बाहर, किल्ला सं. १५ मुस्तातिल सं. 18, किल्ला सं. 21, ग्राम मटियाला के राजस्य एस्टेट में स्थित, कॉलोनी, ब्लॉक—सी के नाम से ज्ञात, ननै पॉर्क जत्तम नगर नई दिल्ली—110059 (जिसका मापक क्षेत्र 41 वर्ग गज यानी 34 29 वर्ग मीटर) **सीमांक**र

प्रकार : उत्तर : २० फुट चौड़ी सड़क , पूर्व : प्लॉट का हिस्सा , दक्षिण : भवन का हिस्सा , पश्चिम : अन्य का प्लॉट				प्लॉट
HHFDELHOU 19000002574, HHFDELHOU 19000002878	जामाल जाज, जॉर्ज करियन	रूपये 17,36,294/– और रूपये 16,11,173/– दि. 24.08.2021 तक	27 अगस्त 2021	08 अगर 2021
प्रत्याभुत परिसंपा	त्तेयों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्प	त्तियों का विवरण : निर्मित प	ग्लैट सं. बी–८, र्त	ोसरे तल प

संपत्ति संख्या एच–3/94 के पश्चिमी भाग पर निर्मित, खसरा सं. 79//3 और 4, **ग्राम पॉलम, महावीर एनक्लेव नई दिल्ली–110045 (मापक क्षेत्र 900 वर्ग फुट), सीमांकन प्रकार : उत्तर :** 5 फुट चौड़ी गली, **पूर्व :** संपत्ति सं एच–3/94 का भाग, **दक्षिण :** सड़क, **पश्चिम :** अन्य की संपत्ति। अजय शर्मा, प्रीति पत्नी

रूपये 20,56,618/- | 27 अगस्त | 08 अगस्त दि. 25.08.2021 तक | 2021 | 2021 **HHFDELHOU** अजय शर्मा 2021 **क्याभत परिसंपत्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरण** : निर्मित तीसरा तल, छत अधिकारों सहि प्लॉट सं. 82–ए और 83 पर निर्मित, खस्त्रस सं. 10/6 और 10/20 के बाहर, ग्राम-मटियाला, ब्लॉक-बी, मांस राम पॉर्क, **उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 (मापक क्षेत्र 55 वर्ग गज) सीमांकन प्रकार : उत्तर :** 20 फुट चौर्ड सङ्क, **पूर्व**: प्लॉट का हिस्सा, **दक्षिण :** अन्य का प्लॉट, **पश्चिम :** अन्य का प्लॉट

भविष्य के ब्याज के साथ ऊपर उल्लेखित सम्बन्धित मांग सूचना में विशेष रूप से उल्लेखित दर पर अतिरित्त ब्याज, भुगतान और/या प्राप्ति की दिनांक तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि के साथ, यदि उत ग्राध्यता(ओं) एचएचएफएल को उपरोक्त के रूप में भुगतान करने में विफल रहता है, तो एचएचएफएल उक्त अधिनियम की घारा 13(4) के तहत उपरोक्त प्रत्याभूत सम्पत्ति(ऑ)/अचल सम्पत्ति(ऑ) के खिलाफ आगे कार्रवाई करेगा और पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उक्त बाध्यता(ऑ)/कानूनी तराधिकारी(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का जोखिम पर नियम लागू होंगे।

उक्त बाध्यता(ऑ)/कानूनी उत्तराधिकारी(ऑ)/कानूनी प्रतिनिधि(ऑ) उक्त अधिनियम के तहत एचएचएफए० की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त प्रत्यामूत सम्पत्ति(ऑ)/अचल सम्पत्ति को चाहे बिक्री, पट्टे या अन्यथ . प्रम से स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध हैं । कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बना गए नियमों का उल्लंघन करता है. उक्त अधिनियम के तहत दिए गए कारावास और / या दंड के लिए उत्तरदायी होग

दिनांक : 07.09.2021 स्थान : दिल्ली

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी प्रति हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



शिवम ऑटोटेक लिमिटेड सीआईएनः L34300HR2005PLC081531

पंजीकृत कार्यालयः 10, पहली मंजिल, टावर-ए, एमार डिजिटल ग्रीन्स, सेक्टर-61, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम, हरियाणा — 122102 टेलीफोनः 0124-4698700; फैक्सः 0124-4698798 ई–मेलः info@shivamautotech.com: वेबसाइटः www.shivamautotech.com

16वीं वार्षिक आम बैठक की सचना. ई-वोटिंग एवं पुस्तक बंदी तिथियों की जानकारी

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 16वीं वार्षिक आम बैठक ("16वीं एजीएम") बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को दोपहर 12:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू होने योग्य प्रावधानों एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 (8 अप्रैल, 2020), 17/2020 (13 अप्रैल, 2020), 20/2020 (5 मई, 2020) एवं 02/2021 (13 जनवरी, 2021) **("एमसीए परिपत्रों")** तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (12 मई, 2020) एवं SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (15 जनवरी, 2021) ("सेबी परिपत्रों") के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्ञाल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 16वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट सहित 16वीं एजीएम में संपादित होने हेतु निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय(ओं) की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ सभी सदस्यों को कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत ईमेल पते पर प्रेषित कर दी गई हैं। सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट का ईमेल प्रेषण 06 सितम्बर, 2021 को **पूर्ण हो गया है।** कृपया ध्यान दें कि एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के माध्यम से सुचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.shivamautotech.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् द बीएसई लिमिटेड एवं द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों <u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u> क्रमशः पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगी।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 एवं सेबी सूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 16वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी व्यावसायिक मदों के सम्पादन हेतु, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान किए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर अपना वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को प्रात: 9:00 बजे से आरम्भ होगी तथा मंगलवार 28 सितम्बर, 2021 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा 28 सितम्बर, 2021 को सायं 5.00 बजे निष्क्रिय कर दिया जाएगा

वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला हो एवं अन्यथा ऐसा करने हेतु प्रतिबंधित न हों, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने हेतु भी योग्य होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम एजीएम से पूर्व अपना वोट डाल दिया हो, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं परन्तु पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे। किसी सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट डालने के पश्चात्, सदस्य को तदनंतर इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीमैटीरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग एवं वीसी के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित होने की विस्तृत प्रक्रिया 16वीं एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है।

रिमोट ई–वोटिंग सहित एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने एवं वीसी∕ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेतु "कट-ऑफ तिथि" बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 है। कोई भी व्यक्ति जो सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण के पश्चात् कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितम्बर, 2021 तक शेयरों को प्रतिरक्षित रखता है, कम्पनी की वेबसाइट <u>www.shivamautotech.com</u> पर उपलब्ध, 16वीं एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन कर के यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो वह वोट डालने हेतु अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

आगे सचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014, यथा संशोधित, तथा सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सोमवार, 20 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने 13 अगस्त, 2021 को आयोजित इसकी बैठक में, रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया एवं एजीएम के

दौरान ई-वोटिंग की विधि के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हेतु, श्री सत्येन्द्र कुमार, (सदस्यता संख्या 4087), सत्येन्द्र कुमार एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव, गुरुग्राम को संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे इलेक्ट्रॉनिक तौर पर शेयर प्रतिरक्षित करने के सम्बन्ध में, सम्बंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ तथा भौतिक तौर पर शेयर प्रतिरक्षित करने के सम्बन्ध में, रजिस्ट्रार व शेयर

admin@mcsregistrars.com पर लिखकर पंजीकरण करा सकते हैं। यदि आपके पास एजीएम एवं ई–वोटिंग में भाग लेने से सम्बद्ध कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप <u>www.evotingindia.com</u> पर सहायता अनुभाग के अन्तर्गत उपलब्ध 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस' ("FAQs") एवं ई–वोटिंग मैनुअल संदर्भित सकते हैं

ट्रान्सफर एजेंट को फोलियो संख्या एवं पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति एवं पता प्रमाण के विवरण सहित

अथवा <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को ईमेल लिख सकते या 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों हेतु श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, (सीडीएसएल

(022-23058542) को संबोधित किया जा सकता है।

दिनांक : 06 सितम्बर, 2021

स्थान : गुरुग्राम

आप निम्नलिखित कर्जदार ने अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण ग्रहण किया है और आप निम्नलिखित ऋण

सह बन्धक अनुबन्ध हेतु कर्जदार/सह–कर्जदार, जमानती के रूप में प्रस्तुत हुए। आपके द्वारा चूक करने के कारण आपके ऋण खाते को प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफैसी अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत 03.09.2021 को गैर-निष्पादन आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हम होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड ने आपके द्वारा प्रदत्त पते पर सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत माँग सूचना निर्गत की थी। कथित सूचनाएं 03.09.2021 को निर्गत की गयी हैं और इन सूचनाओं में कहा गया है कि आपने विभिन्न स्वीकृत ऋणों के भगतान में चुक की है। अतः वर्तमान सचना सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के सन्दर्भ में सर्व करने के लिए प्रकाशित की गयी है।

धारा 13(2) के तहत मांग सचना

क्र. खाते, कर्जदार(रों) प्रवर्तन योग्य प्रतिभृति का विवरण माँग सूचना के अनुसार तिथि तक बकाया राशि तथा जमानती(यों) के तथा भावी ब्याज एवं नाम <u>अन्य व्यय (रु. में)</u> रु. 29.70,691 अम्बाक योगेश फ्लैट नं. 301, प्लॉट सं. बी1, खसरा नं. 166, उम्मेद गार्डन् खसरा नं. 166 में से, आवासीय कॉलोनी उम्मेद गार्डन में कमार. योगेश कमार. प्रीति कुमारी स्थित, राजस्व सम्पदा ग्राम-शाहबेरी, परगना एवं तहसील-दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201301 में। 2. अर्जुन सिंह, सुरेश प्लॉट नं. 213, भवन के, यूसुफपुर उर्फ चकशाहबेरी, खसरा रु. 8,71,031 कश्यप. रामा देवी नं. 213-के, राजस्व सम्पदा ग्राम यूसुफपुर उर्फ चकशाहबेरी परगना एवं तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201301 पूनम, बिरेन्द्र सिंह फ्लैट नं. बी-02, भूतल, प्लॉट नं. 19, खसरा नं. 324, निर्मल रु. 6,52,092 आश्रय, भृतल, टॉवर नं. बी, निर्मल आश्रय कॉलोनी, शिवम गार्डन, ग्राम अछेजा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201450 प्लॉट नं. 241, एनसीआर रेलवे सिटी, खसरा नं. 166 रु. 10.93.309 मुलचन्द प्रेरणा गिरधरपुर सुनारसी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 ज्ञानवती फ्लैट 196, ब्लॉक-ए, खसरा नं. 920, छपरौला, प्लॉट नं. रु. 9,00,832 पंचदेव कामत, पुनीता 5. 196-ए पर मकान, प्रीत विहार, ग्राम-छपरौला, परगना एवं देवी

एतद्वारा आपको ब्याज तथा लागत सहित उपर्युक्त राशि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर होर फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड को अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड कर्जदारों, बंधककर्ताओं तथा जमानतियों की प्रतिभृत आस्तियों पर कब्जा करने सहित समस्त या किसी एक या अधिक प्रतिभृत आस्तियों के विरुद्ध कथित अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही करेगा। कथित अधिनियम के तहत होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड के पास उपलब्ध शक्तियों में शामिल हैं (1) प्रतिभृत आस्तियों को अवमुक्त करने के लिए पट्टे, बिक्री के एसाइनमेंट द्वारा अन्तरण के अधिकार सहित कर्जदारों/जमानतियों की प्रतिभृत आस्तियों का कब्ज करना (2) पट्टे, एसाइनमेंट या बिक्री द्वारा अन्तरण के अधिकारों सिहत प्रतिभृत आस्तियों के प्रबन्धन का अधिग्रहण करना तथ प्रतिभूत आस्तियों की वसूली करना और होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रतिभूत आस्तियों का कोई अन्तरित प्रतिभृत आस्तियों के सम्बन्ध में किसी अन्तरण का अधिकार मानो यह आपके द्वारा किया गया हो।

तहसील-दादरी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005

कथित अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के सन्दर्भ में एतद्वारा आपको होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड की पूर्व सहमति के बिना होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इण्डिया लिमिटेड के पास उपर्युक्त सन्दर्भित दूष्टिबन्धक/बन्धक किसी भी प्रतिभृति आस्ति के बिक्री, पट्टे या अन्य विधि (आपको प्रकार्य के सामान्य व्यवहार के अतिरिक्त) से अन्तरण करने से निषिद्ध किया जाता है।

तिथि : 07.09.2021

स्थान : गाजियाबाद

इनफाइनाइट कम्प्यूटर सोल्यूशन्स (इंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 21, इन्स्टीट्युशनल एरिया सेक्टर 44, गुरुग्राम-122001, हरयाणा, भारत कारपोरेट कार्यालय: 157, ईपीआईपी जोन, फेज II, कुण्डलाहल्ली व्हाइटफील्ड, बेंगलुरू-560 066, कर्नाटक, भारत (**सीआईएन** : यू72200एचआर1999पीएलसी089980,

वेबसाइट: <u>www.infinite.com</u>, ई−मेल: <u>cs@infinite.com</u>, दूरभाष: +91 80 41930000, +91 124 3301800/833, फेक्स: +91 80 41930009, +91 124 3301867 22वीं वार्षिक साधारण सभा के विषय में सदस्यों के लिए सूचना एतदद्वारा यह सचित किया जाता है कि इनफाइनाइट कम्प्यटर सोल्यशन्स (इंडिया

(''**ओएवीएम**'') से एजीएम के नोटिस में उक्लिखित कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जा रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को ध्यान में रखकर कारपोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 05 मई, 2020 के परिपत्र एवं 13 जनवरी 2021 के परिपत्र (सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्रों'' के नाम से संदर्भित) के माध्यम से एजीएम का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों, किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, करने की अनुमति प्रदान की गई है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के

परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') और एमसीए परिपत्रों के

प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की एजीएम का आयोजन वीडियो काफेंसिंग/अन्य

लिमिटेड (''कम्पनी'') की 22वीं एजीएम का आयोजन गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021

को प्रात: 9 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग (व्हीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों

आँडियो विजुअल माध्यमो से किया जायेगा। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के ऊपर उल्लिखित परिपत्रों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें एजीएम का नोटिस भी शामिल है, ई-मेल के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते डिपोजिटरी/कम्पनी के पास 27 अगस्त, 2021 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत हैं। सदस्य, कृपया यह नोट करें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम का नोटिस, कम्पनी की वेबसाइट www.infinite.com एवं नेशनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड

(''**एनएसडीएल**'') की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध है। कम्पनी द्वारा ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के तौर पर एनएसडीएल की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम के नोटिस में उल्लिखित संकल्पों पर अपना वोट देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग (''रिमोट ई-वोटिंग'') की सुविधा पटान कर रही है। इसके अलावा कम्पनी टारा एजीएम के टौरान ई-वोटिंग (''**ई-वोटिंग**'') सिस्टम के माध्यम से वोट देने की सविधा भी प्रदान की जा रही है। रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का विवरण एजीएम के नोटिस में दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए ईमेल पते को पंजीकरण करने / अपडेट करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है :-

भौतिक स्वरूप में धारित शेयर - कृपया हमारे कम्पनी रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए''), बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अपने नाम, फोलियो नम्बर, पैन एवं आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रतियां (स्वयं साक्ष्यांकित) एवं शेयर प्रमाण पत्रों के पूर्ण विवरण के साथ Investor.del@bigshareonline.com पते पर ई-मेल भेजें।

डीमेट स्वरूप में धारित शेयर - कृपया अपने संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से सम्पर्क करके, अपने ई-मेल पते का पंजीकरण करवाएं।

ई-मेल पते के पंजीकरण/अपडेट के पश्चात, आप evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर, वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम नोटिस एवं वोट देने के आवश्यक निदेश प्राप्त करने एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों से आयोजित की जा रही एजीएम में भाग लेने की अनुमति प्राप्त कर सकतें हैं। ऐसे सदस्य, अपने वोट एजीएम के नोटिस में उल्लिखित ई-वोटिंग निदेशों के अनुसार डाल सकेगें। कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली. 2014. यथा संशोधित, के नियम 20 के अनुपालन में, सदस्यों को निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **सोमवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को प्रात: 9 बजे** (भारतीय मानक समय) प्रारंभ होगी तथा यह बुधवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2021 को सायं 5 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। उपर्युक्त तिथि तथा समय के पश्चात, ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी तथा इसके पश्चात ई-वोटिंग माझ्यूल निष्क्रियं कर दिया जायेगा।

केवल वही सदस्य ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का उपयोग करने अथवा एजीएम में भाग लेकर ई-वोटिंग करने के पात्र होंगे, जिनके नाम गुरुवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 (''कट-ऑफ तिथि'') की स्थिति के अनुसार, सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजिटरी दारा रखरखाव किए गए लाभग्राही स्वामित्व रजिस्टर में दर्ज होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, को इस नोटिस को केवल सचना के उददेश्य से ही उपयोग करना चाहिए।

ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने नोटिस के प्रेषण के पश्चात, कम्पनी के शेयर प्राप्त करके कम्पनी की सदस्यता प्राप्त की है तथा वह कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2021 को शेयर धारित करता है, evoting@nsdl.co.in को अनुरोध भेजकर कर, अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत है तो वह अपने विद्यमान यजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग वोट देने के लिए कर सकता है।

एजीएम में ई-वोटिंग की सविधा उपलब्ध होगी तथा एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य अपना वोट डालने के लिए पात्र होगें, जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं डाला है। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के पश्चात भी सदस्य एजीएम में भाग ले सकते

हैं परन्तु उन्हें फिर से एजीएम में वोट देने की अनुमति नहीं होगी। किसी प्रश्न अथवा किसी समस्या के लिए, आप www.evoting.nsdl.com वेबसाइट पर ''डाउनलोड सेक्शन'' में उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैनुअल/एफएक्यू सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आप, एनएसडीएल के टोल फ्री नम्बर 1800-1020-990 और 1800 22 44 30 पर अथवा सुश्री. सरीता मोटे, सहाय्यक प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग. लोअर परेल, मुम्बई-400013 ई-मेल आयडी

evoting@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल के आदेश से जारी कृते इनफाइनाइट कम्प्यूटर सोल्यूशन्स (इंडिया) लिमिटेड हस्ताक्षर /-

सौरभ मदान 7 सिंतम्बर, 2021 कम्पनी सचिव

हस्ता.

स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 6 सितम्बर 2021